



4 OCT 1982

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 274]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 13, 1982/भाद्र 22, 1904

No. 274]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 13, 1982/BHADRA 22, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

प्रारूप नियम

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1982

सांख्यिकी 568(अ) —केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपभ्रंशण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 की 37) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात् खाद्य अपभ्रंशण निवारण नियम, 1955 में कतिपय और संशोधन करना चाहती है। जैसा कि उक्त उपधारा में अपेक्षित है, प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जिनके [उससे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर, इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रति जनता को उपलब्ध होने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

उपरोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उस पर विचार करेगी।

आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हो, केवल भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के पते पर भेजे जा सकते हैं।

1 इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपभ्रंशण निवारण (संशोधन) नियम, 1982 है।

2 खाद्य अपभ्रंशण निवारण नियम, 1955 (जिसे इसमें पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 50 में:—

(1) उपनियम (1) के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

“परन्तु यह और कि ऐसे दुग्ध उत्पादक को जो किसी दुग्ध सहकारी संघ को प्रसंस्करण के लिए दुग्ध का प्रदाय करता है, इस उपनियम से छूट दी जाएगी।”

(3) उपनियम 1(क) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“1(क) खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी दुग्ध सहकारी संघ को विभिन्न किसानों से प्रसंस्करण के लिए दुग्ध इकट्ठा करने के लिए एक अनुज्ञप्ति जारी कर सकेगा।”

3 उक्त नियम के परिशिष्ट “ख” में:

(1) मद्रा 11 02 08, के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्, ए 11 02 08—‘कुल्की’ या ‘कुल्का’ से गाय या भैंस के दूध से या दोनों के सम्मिश्रण से या किसी अन्य दुग्ध उत्पाद से अभिव्यक्त किया गया हिमशीतित उत्पाद अभिप्रेत है जिसमें गन्ने की चीनी, अम्ल-

712 GI/82
Recd. in C.R.
100-1982
R-182 CR

दूध, द्रव ग्लूकोज और सुखाया गया द्रव ग्लूकोज, अंडे, फल, फल-रस, परिरक्षित फल, दूध-फल, खाने योग्य मुक्तिक और अनुज्ञात खाद्य रस हो या न हो। इसमें अनुज्ञात स्थायीकारक और पायसकर भार के अनुसार 0.5 प्रतिशत से अधिक हो सकते हैं। (इसमें अतिरिक्त स्टाच को नहीं होगा)। उत्पाद में 5.0 प्रतिशत वृद्ध मक्खन, 3.5 प्रतिशत प्रोटीन और कुल 3.2 प्रतिशत ठोस पदार्थ से कम नहीं होने निवाय उम वषा के जब पूर्वोक्त निर्मितियों में से किसी में फल या दूधकण दोनो हो तो क्रमशः वृद्ध मक्खन और कुल ठोस पदार्थ भार के अनुसार 6.0 प्रतिशत और 10.0 प्रतिशत से कम नहीं होंगे।

ए 11 02 08 01 आइसक्रीम, चाकलेट आइसक्रीम या साफ्टी आइसक्रीम में गाय या भैंस के दूध से या दानों के सम्मिश्रण से या किसी अन्य वृद्ध उत्पाद से अभिप्रेत किया गया हिमणीय उत्पाद अभिप्रेत है जिसमें गन्त की चीनी, डेक्स्ट्रोज, द्रव ग्लूकोज और सुखाया गया द्रव ग्लूकोज, अंडे फल, फल-रस, परिरक्षित फल, दूध फल, चाकलेट, खाने योग्य मुक्तिक और अनुज्ञात खाद्य रस हो या न हो। इसमें अनुज्ञात स्थायीकारक और पायसकर भार के अनुसार 0.5 प्रतिशत से अधिक हो सकते हैं। मिश्रण को हिमणीय करने के पूर्ण समुचित रूप में गर्म किया जाएगा। इसमें नियम 43 के उपनियम (2) में यथाविवक्षित लेवल पर घोषणा के अधीन अधिक से अधिक 5.0 प्रतिशत अधिकतम स्टाच हो सकता है। उत्पाद में 10.0 प्रतिशत वृद्ध मक्खन, 3.5 प्रतिशत प्रोटीन और कुल 3.6.0 प्रतिशत ठोस पदार्थ से कम नहीं होने निवाय उम वषा के जब पूर्वोक्त निर्मितियों में से किसी में फल या दूधकण या दोनो हो तो वृद्ध मक्खन भार के अनुसार 5.0 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

(2) मद ए 18 12 के म्याद पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् "ए 18 12—माल्टीकृत वृद्ध आहार में पूर्ण वृद्ध, अणत, सल्फाई रजित वृद्ध या वृद्ध पाउडर के साथ आउड बाण्डी माल्ट, अन्य माल्टीकृत अनाज दाने और गेहूँ के आटे या किसी अन्य अनाज के आटे या माल्ट मार के मेश से अलग किए गए मोटे के साथ मिश्रण करके अभिप्रेत किया गया उत्पाद अभिप्रेत है जिसमें मुक्तिक कर्मक और मसाले, पायसकर पदार्थ, अंडे, प्रोटीन आइसोलेट, खाने योग्य साधारण नमक, सोडियम या पाटामियम बाइकार्बोनेट, खनिज और विटामिन हो या न हो तथा जायित अतिरिक्त चीनी के हो और ऐसी रीति में मिश्रित हो कि स्टाचों पदार्थ का पूर्ण रूप में जलापघटन हो गया हो और उस चूर्ण या दाने या पाउडर के रूप में राशर शुष्कन, स्प्रे शुष्कन, वैकम शुष्कन या किसी अन्य रीति में तैयार किया गया हो। इसमें कोकोघा चूर्ण हो सकता है। यह गर्भा और अन्य आहूय पदार्थ से मुक्त होगा। इसमें अतिरिक्त स्टाच नहीं होगा। इसमें भूनी चीनी को छाड़कर कोई अन्य परिरक्षक या अतिरिक्त रस नहीं होगा। कोकोघा चूर्ण या माल्टीकृत वृद्ध आहार में अतिरिक्त चीनी हो सकती है।

माल्टीकृत वृद्ध आहार निम्नलिखित मानकों के अनुरूप भी होगा, अर्थात् —

कोकोघा चूर्ण रहित माटीकृत वृद्ध आहार		कोकोघा चूर्ण सहित माटीकृत वृद्ध आहार
1	2	3
(क) नमी	भार के अनुसार 4 प्रतिशत से अधिक नहीं	भार के अनुसार 4 प्रतिशत अधिक नहीं
(ख) कुल प्रोटीन (एनप्र 6.25)	भार के अनुसार 13 प्रतिशत (शुष्क आधार पर) से कम नहीं	भार के अनुसार 11.5 प्रतिशत (शुष्क आधार पर) से कम नहीं

1	2	3
(ग) वसा	भार के अनुसार 7.5 प्रतिशत (शुष्क आधार पर) से कम नहीं।	भार के अनुसार 6.0 प्रतिशत (शुष्क आधार पर) से कम नहीं
(घ) कुल क्षार	भार के अनुसार 5 प्रतिशत (शुष्क आधार पर) से अधिक नहीं	भार के अनुसार 5 प्रतिशत (शुष्क आधार पर) से अधिक नहीं
(ङ) अम्ल अचिन्नेय तार	भार के अनुसार 0.1 प्रतिशत (शुष्क आधार पर) से अधिक नहीं	भार के अनुसार 0.1 प्रतिशत (शुष्क आधार पर) से अधिक नहीं
(च) विनैयता	भार के अनुसार 85 प्रतिशत से कम नहीं	भार के अनुसार 80 प्रतिशत से कम नहीं
(छ) कोकोघा चूर्ण	—	भार के अनुसार 5 प्रतिशत (शुष्क आधार पर) से कम नहीं
(ज) स्टाच की जाच	नेगेटिव	नेगेटिव
(झ) जीवाणु संख्या	प्रतिग्राम 50,000 से अधिक नहीं	प्रतिग्राम 50,000 से अधिक नहीं
(झ) कोलो-फार्मकाउट	प्रतिग्राम 10 से अधिक नहीं	प्रतिग्राम 10 से अधिक नहीं

3. मद ए 18 14 में, मशटका की सूची में 'सोनी' शब्द को पश्चात् "गुड, शक्कर, बूरा या खाइमारी" शब्द अत्र स्थापित किए जाएंगे।

[म० पी० 15014/14/80—पी एच (एफ एड एन) पॉण्डण]

आर० के० मिश्रल, नयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 1982

G.S.R. 568(E).—The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954) after consultation with Central Committee for Food Standards is hereby published, as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of ninety days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government.

Objections or suggestions, if any, may please be sent to the Secretary to the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, Nirman Bhavan, New Delhi.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Rules, 1982.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 (hereinafter referred to as the said rules) in rule 50:

(i) in sub-rule (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that a producer of milk who supplies milk to a milk co-operative union for processing shall be exempted from this sub-rule.”

(2) After sub-rule 1(A), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(AA)—The Food (Health) Authority may issue one licence to a milk co-operative union to collect milk from different farmers for processing”.

(3) In Appendix ‘B’ of the said rules:

(1) for item A.11.02.08, the following shall be substituted, namely:—

“A.11.02.08—‘Kulfi’ or ‘Kulfa’ means the frozen product obtained from cow or buffalo milk or a combination thereof or from any other milk products, with or without the addition of cane sugar, dextrose, liquid glucose and dried liquid glucose, eggs, fruits, fruit juices, preserved fruits, nuts, chocolates, edible flavours and permitted food colours. It may contain permitted stabilizers and emulsifiers not exceeding 0.5 per cent by weight. The mixture shall be suitably heated before freezing. The product shall contain not less than 8.0 per cent milk fat, 3.5 per cent protein and 32 per cent total solids except that when any of the aforesaid preparation contains fruits or nuts or both, the content of milk fat and total solids shall not be less than 6.0 per cent and 30.0 per cent by weight respectively. It shall not contain added starch.

A.11.02.08.01—Ice-cream or chocolate ice-cream or softy ice-cream means the frozen product obtained from cow or buffalo milk or a combination thereof or from any other milk products with or without addition of cane sugar, dextrose, liquid glucose and dried liquid glucose, eggs, fruits, fruit juices, preserved fruits, nuts, chocolate, edible flavours and permitted food colours. It may contain permitted stabilizers and emulsifiers not exceeding 0.5 per cent by weight. The mixture shall be suitably heated before freezing. It may contain added starch to a maximum extent of 5.0 percent under a declaration on the label as specified in sub-rule (2) of Rule 43. The product shall contain not less than 10.0 per cent milk fat, 3.5 per cent protein and 36.0 per cent total solids, except that when any of the aforesaid preparations contain fruits or nuts or both, the content of milk fat shall not be less than 10.0 per cent by weight”.

(2) for item A.18.12, the following shall be substituted, namely:—

“A.18.12—MALTED MILK FOOD means the product obtained by mixing whole milk, partly skimmed milk or milk

powder with the wort separated from a mash of ground barley malt, any other malted cereal grain and wheat flour or any other cereal flour or malt extract with or without addition of flavouring agents and spices, emulsifying agent, eggs, protein isolates, edible common salt, sodium or potassium bicarbonate, minerals and vitamins and without added sugar in such a manner as to secure complete hydrolysis of starchy material and prepared in a powder or granule or flake form by roller drying/spray drying, vacuum drying or by any other process. It may contain cocoa powder. It shall be free from dirt and other extraneous matter. It shall not contain any added starch. It shall not contain any preservative or added colour except ceramel. Malted milk food containing cocoa powder may contain added sugar.

Malted milk food shall also conform to the following standards, namely:—

	Malted milk food without cocoa powder	Malted milk food with cocoa powder
(a) Moisture	Not more than 4 per cent by weight.	Not more than 4 per cent by weight.
(b) Total protein (N × 6.25) (on dry basis).	Not less than 13 per cent by weight.	Not less than 11.5 per cent.
(c) Fat (on dry basis)	Not less than 7.5 per cent by weight.	Not less than 6.0 per cent by weight.
(d) Total ash (on dry basis)	Not more than 5 per cent by weight.	Not more than 5 per cent by weight.
(e) Acid insoluble ash (on dry basis)	Not more than 0.1 per cent by weight.	Not more than 0.1 per cent by weight.
(f) Solubility	Not less than 85 per cent by weight.	Not more than 80 per cent by weight.
(g) Cocoa powder (on dry basis)		Not less than 5 per cent by weight.
(h) Test for starch	Negative.	Negative.
(i) Bacterial Count.	Not more than 50,000 per gramm.	Not more than 50,000 per gram.
(j) Coliform count	Not more than 10 per cent.	Not more than 10 per gm.

3. In item A.18.14, in the list of ingredients, after the word, “Sugar”, the word “gur, Jaggery, bura or Khandasari” shall be inserted.

[No. P. 15014/14/80—PH(F&N)/PFA]

R.K. SINGHAL, Jr. Secy.

